



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476]
No. 476]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 1981/आश्विन 30, 1903
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1981/ASVINA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1981

क्रा० आ० 762(अ) —न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्रा० आ० 54(अ), तारीख 2 फरवरी, 1981 का अधिवान्त करने हुए केन्द्रीय सरकार ने इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट बुलफेब खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को मदद है, नियत करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए है जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अधिवान्तमार उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में दो मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिधि के अवसान में पूर्व उक्त प्रस्तावों की बाबत जो भी आक्षेप या गुहाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1)

(2)

अनुसूची -

(1) मजदूर (2) दरेसी मजदूर (3) चणरसी (4) मफाई वाला (5) पानी वाला (6) चौकीदार (7) अन्य प्रवर्ग	(2) 7 75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 9 25 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
--	--

अनुसूची :

(1) सहयक डिप्टर (2) मजदूर (3) कैंटीन परिचर (4) मेट (एमएमआर, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण पत्र के बिना) (5) सिगनल मैन (6) श्रम मीरदार (7) डाक बाय (8) खनक (9) अन्य प्रवर्ग	(2) 7 75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
---	---

जो अनुसूची/अनुसूची पर्यवेक्षी है।

कुशल :

- (1) हैण्डहोल ड्रिलर (2) मेट (एमएम) 11.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए)
 मार, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित (3) बढ़ई (4) लोहार (5) 14.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
 हीलेज प्रचालक (6) मैकेनिक (7) डिस्पेंसरी परिसर (8) राज (9) अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो कुशल हैं।

लिपिकीय :

- लेखाकार, टंक/आधुनिक, लिपिक 11.75 रु०
 भंडारी, भंडार का भार साक्षक, टाइम कीपर, रोकड़िया, अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों जो लिपिकीय प्रकार के हैं।

स्पष्टीकरण :—

(1) इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें साप्ताहिक विश्राम के लिए वेज मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों का संवेद्य दरों का कमरा: 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

(4) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं;

(ख) “अर्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या क्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या क्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकवृद्धि आवश्यक है।

(5) जहाँ किसी क्षेत्र में, इस अधिसूचना द्वारा नियत दरें किसी मजदूर की विद्यमान मजदूरी की दरों से निम्नतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कर्मचारी की ऐसी उच्चतर दरें न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

[सं० एस-32019/8/78-इन्स्यू सी (एम इन्स्यू)]
 जगि भूषण, प्रवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 1981

S.O.762(E).—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of the section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the Notification of the Government of

India in the Ministry of Labour No. S.O. 84(E) dated 2nd February, 1981 for fixing the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of the employees employed in the employment in Wolfram Mines as specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration after the expiry of 2 months from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
------------------------	--------------------------------

1	2
---	---

Unskilled :

(1) Mazdoor (2) Dressing mazdoor	Rs. 7.75 (for work above ground)
(3) Peon (4) Sweeper (5) Waterman	
(6) Chowkidar (7) Other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 9.25 (for work below ground)

Semi skilled :

(1) Assistant driller (2) Helper (3) Canteen attendant (4) Mate (without competency certificate under MMR 1961 (5) Signal Man (6) Labour sirdar (7) Dak Boy (8) Miner (9) Other categories by whatever name called which are semi-skilled, unskilled supervisory.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.54 (for work below ground)
---	---

Skilled :

(1) Handhole driller (2) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Rules 1961 (3) Carpenter (4) Black smith (5) Haulage operator (6) Mechanic (7) Dispensary attendant (8) Mason (9) Any other categories by whatever name called which are skilled	Rs. 11.75 (for work above ground) Rs. 14.00 (for work below ground)
---	--

Clerical :

Accountant; Typist/steno; Clerk; Store keeper, Store incharge; Time keeper; Cashier, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	Rs. 11.75.
---	------------

Explanation :—

For the purpose of this notification:—

(1) the minimum rates of wages are all inclusive rates and includes also the wage payable for the weekly day of rest;

(2) the minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(3) the minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category

(4) (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience of the job

(b) "Semi skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience of the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience of the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement,

(5) Where in any area, the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the prevailing rates of wages of any employee, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee

[No S-32019/8/78-WC(MW)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy

